



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1889]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2011/आश्विन 8, 1933

No. 1889]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2011/ASVINA 8, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2011

का.आ. 2279(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 के 0/000 कि.मी. से 81/600 कि.मी. तक के भू-खण्ड (तिरूथानी-चेन्नई सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष जिला राजस्व अधिकारी (भूमि अर्जन), राष्ट्रीय राजमार्ग-205, तिरुवल्लूर को 155/6डी, जवाहरलाल नेहरू रोड, प्रथम तल, तिरुवल्लूर, तमिलनाडु में स्थित उनके कार्यालय में लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त पते पर उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 के 0/000 कि. मी.से 81.600 कि. मी.तक (तिरुथानी-चेन्नई सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तिरुवल्लूर	तिरुवल्लूर	(1)संख्या 64, पट्टाराईपेरुमबुदु -बी	750/4बी2ए2	निजी	शुष्क	110
				751/1ए	निजी	नम	850
				753/1ए2	निजी	नम	190
				753/2ए2	निजी	नम	913
				754/1बी	निजी	नम	268
				755/2बी	निजी	नम	518
				755/3ए	निजी	नम	550
				755/4बी2	निजी	नम	1066
				755/5बी2	निजी	नम	378
				756/1ए2	निजी	नम	900
				756/2ए	निजी	नम	800
				757/1	निजी	नम	600
				761/1ए1ए2	निजी	शुष्क	100
				761/1ए3बी	निजी	शुष्क	1231
				761/1बी1ए2	निजी	शुष्क	301
				761/1बी1बी2	निजी	शुष्क	186
				761/1बी1सी2	निजी	शुष्क	202
				761/1बी3ए2	निजी	शुष्क	269
				761/1बी3सी1बी	निजी	शुष्क	330
				761/1बी3सी2बी	निजी	शुष्क	20
				761/2ए1ए2	निजी	शुष्क	220
				761/2ए1सी	निजी	शुष्क	700
				761/2ए2बी	निजी	शुष्क	385
				761/5बी	निजी	शुष्क	220
				761/7बी	निजी	शुष्क	110
				761/8बी	निजी	शुष्क	88
				764/2	निजी	शुष्क	220
				770/1बी	निजी	नम	605
				770/4ए2	निजी	नम	35
				771/3बी	निजी	नम	136
				773/1ए2	निजी	शुष्क	471
				842/2ए2	निजी	शुष्क	275
				842/2सी2बी	निजी	शुष्क	2262
				842/3बी1ए2	निजी	शुष्क	1650
				842/3बी3ए2	निजी	शुष्क	850

1	2	3	4	5	6	7	8
				849/1बी2	निजी	नम	2050
				851/1ए2	निजी	शुष्क	1550
				851/2	निजी	शुष्क	2750
				851/3बी	निजी	शुष्क	1373
				856/1बी2बी	निजी	नम	2900
				858/5	निजी	नम	323
				858/6	निजी	नम	350
				858/7	निजी	नम	400
				858/8	निजी	नम	450
				858/9	निजी	नम	968
				859/11बी	निजी	नम	33
				859/14बी	निजी	नम	215
				860/1बी2बी	निजी	नम	350
				860/2सी2बी	निजी	नम	800
				863/1ए2	निजी	नम	150
			(2) सिरुकडल	40/1ए1ए	निजी	शुष्क	6700
				40/1ए1ई	निजी	शुष्क	385
				40/1ए2	निजी	शुष्क	150
				40/1बी	निजी	शुष्क	100
				40/1सी	निजी	शुष्क	100
				40/1डी	निजी	शुष्क	200
				40/1ई	निजी	शुष्क	300
				40/6बी	निजी	शुष्क	1950
				40/9ए1ए	निजी	शुष्क	750
				40/10ए	निजी	शुष्क	1700
				40/12	निजी	नाथम घर की दिशा	418
				40/12बी	निजी	शुष्क	82
				40/13	निजी	नाथम घर की दिशा	154
				40/13बी	निजी	शुष्क	57
				40/14	निजी	शुष्क	100
				41/1बी2	निजी	शुष्क	536
				41/5ए	निजी	शुष्क	2016
				41/6ए	निजी	शुष्क	2377
				41/7ए	निजी	शुष्क	850
				41/9बी	निजी	शुष्क	1820
				41/11बी2	निजी	शुष्क	186
				41/12बी2	निजी	शुष्क	82
				41/13बी	निजी	शुष्क	1975
				44/1ए	नाथम घर की दिशा	शुष्क	43

1	2	3	4	5	6	7	8
				46/1ए1	निजी	शुष्क	552
				46/1बी	निजी	शुष्क	250
				46/1सी	निजी	शुष्क	600
				46/2ए1ए	निजी	शुष्क	4295
				46/2बी	निजी	शुष्क	450
				46/7ए	निजी	शुष्क	150
				46/7बी	निजी	शुष्क	100
				46/7सी	निजी	शुष्क	150
				46/8ए2	निजी	शुष्क	815
				46/8 आई	निजी	शुष्क	150
				46/8एल2	निजी	शुष्क	115
				47/1ए1सी	निजी	शुष्क	420
				47/1ए1डी	निजी	शुष्क	640
				47/1ए1एफ	निजी	शुष्क	200
				47/1ए3ए	निजी	शुष्क	38
				47/1ए5	निजी	शुष्क	150
				47/1सी	निजी	शुष्क	150
				47/1डी1	निजी	शुष्क	96
				47/1एफ1	निजी	शुष्क	23
				47/1जी	निजी	शुष्क	50
				47/1एच	निजी	शुष्क	200
				47/1के	निजी	शुष्क	150
				47/1एन	निजी	शुष्क	50
				47/1एक्स	निजी	शुष्क	150
				47/1वाई	निजी	शुष्क	150
				47/1जेड	निजी	शुष्क	150
				49/4ए1ए	निजी	शुष्क	1637
				79/13ए	निजी	नाथम घर की दिशा	100
				79/14ए	निजी	नाथम घर की दिशा	350
				80/3ए	निजी	नाथम घर की दिशा	1057
				80/6	निजी	नाथम घर की दिशा	752

[फा. सं. भाराराप्रा-एचक्यू/11013/2011-एलए/नोटिफ/पीआईयू-चेनई]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2011

S.O. 2279(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.205, on the stretch of land from Km 0/000 to Km.81/600 (Tiruttani – Chennai Section) in District Tiruvallur in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of the said land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Special District Revenue Officer (Land Acquisition), National Highways-205, Tiruvallur at his office at 155/6D, Jawaharlal Nehru Road, 1st Floor, Tiruvallur, Tamil Nadu, in writing and shall set out the grounds thereof and the said competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the lands covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid address of the competent authority.

3679 96/11-2

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the stretch of land from Km 0/000 to Km 81/600 (Tiruttani-Chennai Section) of National Highway No. 205 in District Tiruvalur in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey /sub division number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tiruvallur	Tiruvallur	(1) No.64, Pattaraiperumbudur - B	750/4B2A2	Private	Dry	110
				751/1A	Private	Wet	850
				753/1A2	Private	Wet	190
				753/2A2	Private	Wet	913
				754/1B	Private	Wet	268
				755/2B	Private	Wet	518
				755/3A	Private	Wet	550
				755/4B2	Private	Wet	1066
				755/5B2	Private	Wet	378
				756/1A2	Private	Wet	900
				756/2A	Private	Wet	800
				757/1	Private	Wet	600
				761/1A1A2	Private	Dry	100
				761/1A3B	Private	Dry	1231
				761/1B1A2	Private	Dry	301
				761/1B1B2	Private	Dry	186
				761/1B1C2	Private	Dry	202
				761/1B3A2	Private	Dry	269
				761/1B3C1B	Private	Dry	330
				761/1B3C2B	Private	Dry	20
				761/2A1A2	Private	Dry	220
				761/2A1C	Private	Dry	700
				761/2A2B	Private	Dry	385
				761/5B	Private	Dry	220
				761/7B	Private	Dry	110
				761/8B	Private	Dry	88
				764/2	Private	Dry	220
				770/1B	Private	Wet	605
				770/4A2	Private	Wet	35
				771/3B	Private	Wet	136
				773/1A2	Private	Dry	471

1	2	3	4	5	6	7	8
				842/2A2	Private	Dry	275
				842/2C2B	Private	Dry	2262
				842/3B1A2	Private	Dry	1650
				842/3B3A2	Private	Dry	850
				849/1B2	Private	Wet	2050
				851/1A2	Private	Dry	1550
				851/2	Private	Dry	2750
				851/3B	Private	Dry	1373
				856/1B2B	Private	Wet	2900
				858/5	Private	Wet	323
				858/6	Private	Wet	350
				858/7	Private	Wet	400
				858/8	Private	Wet	450
				858/9	Private	Wet	968
				859/11B	Private	Wet	33
				859/14B	Private	Wet	215
				860/1B2B	Private	Wet	350
				860/2C2B	Private	Wet	800
				863/1A2	Private	Wet	150
			(2) Sirukadal	40/1A1A	Private	Dry	6700
				40/1A1E	Private	Dry	385
				40/1A2	Private	Dry	150
				40/1B	Private	Dry	100
				40/1C	Private	Dry	100
				40/1D	Private	Dry	200
				40/1E	Private	Dry	300
				40/6B	Private	Dry	1950
				40/9A1A	Private	Dry	750
				40/10A	Private	Dry	1700
				40/12	Private	Natham House sites	418
				40/12B	Private	Dry	82
				40/13	Private	Natham House sites	154
				40/13B	Private	Dry	57
				40/14	Private	Dry	100
				41/1B2	Private	Dry	536

1	2	3	4	5	6	7	8
				41/5A	Private	Dry	2016
				41/6A	Private	Dry	2377
				41/7A	Private	Dry	850
				41/9B	Private	Dry	1820
				41/11B2	Private	Dry	186
				41/12B2	Private	Dry	82
				41/13B	Private	Dry	1975
				44/1A	Natham House site	Dry	43
				46/1A1	Private	Dry	552
				46/1B	Private	Dry	250
				46/1C	Private	Dry	600
				46/2A1A	Private	Dry	4295
				46/2B	Private	Dry	450
				46/7A	Private	Dry	150
				46/7B	Private	Dry	100
				46/7C	Private	Dry	150
				46/8A2	Private	Dry	815
				46/8 I	Private	Dry	150
				46/8L2	Private	Dry	115
				47/1A1C	Private	Dry	420
				47/1A1D	Private	Dry	640
				47/1A1F	Private	Dry	200
				47/1A3A	Private	Dry	38
				47/1A5	Private	Dry	150
				47/1C	Private	Dry	150
				47/1D1	Private	Dry	96
				47/1F1	Private	Dry	23
				47/1G	Private	Dry	50
				47/1H	Private	Dry	200
				47/1K	Private	Dry	150
				47/1N	Private	Dry	50
				47/1X	Private	Dry	150
				47/1Y	Private	Dry	150
				47/1Z	Private	Dry	150
				49/4A1A	Private	Dry	1637
				79/13A	Private	Natham House site	100

1	2	3	4	5	6	7	8
				79/14A	Private	Natham House site	350
				80/3A	Private	Natham House site	1057
				80/6	Private	Natham House site	752

[F. No. NHAI-HQ/11013/2011-LA/Notif/PIU-Chennai]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.